

जनपद बाराबंकी

दिनांक- 11.09.2021

थाना देवा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 25,000/-रुपये का इनामियां अपराधी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अवधेश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवा श्री धीरज कुमार के नेतृत्व में थाना देवा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.09.2021 को मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 91/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित व 25,000/-रुपये का इनामिया अपराधी जितेंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय शिवनारायण गुप्त निवासी साउथ सिटी रायबरेली रोड सेक्टर जे ब्लॉक पिपरौली थाना पीजीआई जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु०अ०सं० 339/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है और इसका एक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए नकबजनी जैसे अपराध कारित करते हैं, जिनके विरुद्ध जनपद बाराबंकी व लखनऊ में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा 25,000/-रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जितेंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय शिवनारायण गुप्त निवासी साउथ सिटी रायबरेली रोड सेक्टर जे ब्लॉक प पिपरौली थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

बरामदगी-

एक अदद तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 256/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि० 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
2. मु०अ०सं० 173/2021 धारा 399/402/411 भादवि थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ।
3. मु०अ०सं० 91/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज कुमार थाना देवा जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री अरुण कुमार मिश्रा, उ०नि० श्री सौम्य कुमार जयसवाल थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० अजय कुमार सिंह, हे०का० विनय कुमार सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. का० प्रदीप चौहान, का० सुनील नागर थाना देवा जनपद बाराबंकी।